



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 ई०
(माघ 22, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 36201/दस-लाइसेंस/देशी मदिरा बोतल भराई नियमावली-2022

प्रयागराज, दिनांक : 11 फरवरी, 2022 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-12

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यू० पी० अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से इस निम्ति प्रकाशित समस्त पूर्व नियमों, जहां तक वे इस नियमावली से असंगत हों का अधिक्रमण करके देशी मदिरा को बोतलों में भरने (बाटलिंग) के लिये लाइसेंसो से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2022

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2-नियम-7 का संशोधन—उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2020 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

7 (1) बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र सी0एल0बी0-3 में दिया जायेगा। जब तक शुल्क या उसका कोई आंशिक भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र सी0एल0बी0-1 एवं सी0एल0बी0-2 में बोतल भरने के लाइसेंस को दो वर्षों के लिये नवीकृत किया जा सकता है। किन्तु उक्त लाइसेंस नवीकरण सम्बन्धित पी0डी0-2/पी0डी0-33 लाइसेंस की वैधता की अवधि तक वैध रहेगा।

(2) सी0एल0बी0-1 व सी0एल0बी0-2 लाइसेंसों के नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार व संदेय होगी—

क्र0सं0	शराब की अनुमानित वार्षिक बाटलिंग (36% बी/वी में)	सी0एल0बी0-1 एवं सी0एल0बी0-2 लाइसेंसों की अवधारित नवीकरण फीस (रुपये में)
1	2	3
1	पचास लाख बोतलों तक	एक लाख
2	पचास लाख से दो करोड़ बोतलों तक	दो लाख
3	2,00, दो करोड़ से चार करोड़ बोतलों तक	पांच लाख
4	चार से छः करोड़ बोतलों तक	दस लाख
5	छः करोड़ से अधिक	पन्द्रह लाख

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7 (1) बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र सी0एल0बी0-3 में दिया जायेगा। जब तक शुल्क या उसका कोई आंशिक भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र सी0एल0बी0-1 एवं सी0एल0बी0-2 में बोतल भरने के लाइसेंस को दो वर्षों के लिये नवीकृत किया जा सकता है। किन्तु उक्त लाइसेंस नवीकरण सम्बन्धित पी0डी0-2/पी0डी0-33 लाइसेंस की वैधता की अवधि तक वैध रहेगा।

(2) किसी वर्ष के लिये नवीकरण के आवेदन-पत्र के साथ नवीकरण के लिये आवेदित वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों की कुल संख्या के संबंध में एक घोषणा-पत्र संलग्न होगा। उक्त वर्ष के लिये सीएलबी-1 और सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण शुल्क की गणना रुपया 2,00,000 प्रति पचास लाख बोतल या उसके किसी भाग, जो विहित धारिताओं में उक्त घोषणा-पत्र में यथा उल्लिखित भरी जानी हो, की दर से की जायेगी और इसे लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों की वास्तविक संख्या, घोषणा-पत्र में उल्लिखित बोतलों की संख्या से अधिक होने वाली हो, तो लाइसेंसधारी इसके लिये एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा और उपर्युक्तानुसार आगणित नवीकरण शुल्क की अतिरिक्त धनराशि जमा करेगा।

परन्तु यह और कि नवीकरण शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि किसी भी स्थिति में प्रतिदेय या सामयोज्य नहीं होगी।

परन्तु यह और कि सीएलबी-1 या सीएलबी-2 लाइसेंस के लिये न्यूनतम नवीकरण शुल्क रुपया 2,00,000 होगा। परन्तु यह और कि नवीकरण शुल्क के आधे के बराबर फ्रेंचाइजी शुल्क और अतिरिक्त नवीकरण शुल्क के आधार पर आगणित अतिरिक्त फ्रेंचाइजी शुल्क, यदि कोई हो, सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण के लिये भी संदेय होगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

परन्तु यह कि सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के नवीकरण के लिये आधी नवीकरण फीस के समतुल्य फ्रेंचाइजी फीस भी संदेय होगी। अनुमानित वार्षिक बोतलों में भरी मदिरा की मात्रा की गणना माह जनवरी के अन्त में पूर्ववर्ती दस माह में बोतलों में भरी गयी कुल मदिरा की मात्रा के आधार पर की जायेगी।

3-नियम 8 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

लाइसेंस हेतु निबंधन एवं शर्तें प्रपत्र सी0एल0बी0-1 तथा सी0एल0बी-2 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधधीन होगा—

(1) लाइसेंसधारी बोतल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्वानुमोदित हो और लाइसेंस पर सम्यक् रूप से पृष्ठांकित हो। उक्त भू-गृहादि का प्रयोग देशी मदिरा को बोतल में भरने एवं उसे भण्डारित करने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) लाइसेंसधारी उक्त भू-गृहादि में आबकारी आयुक्त, के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार के सभी परिवर्धन एवं परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं नीले मुद्रण पर दर्शाये जायेंगे।

(3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक् कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी मदिरा के भण्डारण के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई के कुण्ड स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।

(4) बोतलों में भरी गयी मदिरा, पृथक् कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।

(5) प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायगी जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

लाइसेंस हेतु निबंधन एवं शर्तें प्रपत्र सी0एल0बी0-1 तथा सी0एल0बी-2 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधधीन होगा—

(1) लाइसेंसधारी बोतल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्वानुमोदित हो और लाइसेंस पर सम्यक् रूप से पृष्ठांकित हो। उक्त भू-गृहादि का प्रयोग देशी मदिरा को बोतल में भरने एवं उसे भण्डारित करने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) लाइसेंसधारी उक्त भू-गृहादि में आबकारी आयुक्त, के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार के सभी परिवर्धन एवं परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं नीले मुद्रण पर दर्शाये जायेंगे।

((3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक् कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी मदिरा के भण्डारण के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई के कुण्ड परिनिर्मित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।

(4) बोतलों में भरी गयी मदिरा, पृथक् कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।

(5) प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायगी जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

(6) सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष अनुज्ञा के और उसे अनुसार सम्मिश्रण या तीव्रतावरोह निषिद्ध है।

(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार देशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंजन करने वाला पदार्थ अथवा कोई अन्य पदार्थ मिलाना निषिद्ध है।

(8) विशेष परिस्थितियों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोतल भराई कक्ष को आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये प्रयोग किया जा सकेगा, परन्तु यह कि किसी भी दशा में देशी मदिरा की बोतल भराई के समय भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई नहीं की जायेगी।

(9) लाइसेंसधारी देशी मदिरा को ऐसी क्षमता एवं तीव्रता की बोतलों या अन्य संधानों में भराई करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निर्धारित किया जाये।

(10) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा देशी शराब की बोतल भराई के लिये प्रयुक्त बोतलों या अन्य संधानों के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(11) कांच/पेट बोतल के चेस्ट पर वर्ष के अन्तिम दो अंकों सहित शब्द यू0पी0ई0 समुद्धृत किया जायेगा।

(12) बोतलों को भरने के तुरंत बाद, बोतलबंद शराब के भण्डारण कक्ष में निकालने से पूर्व उनमें सुरक्षा कोड चस्पा करने के साथ कार्क, कैप्सूल तथा लेबल लगा दिया जायेगा। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर के रूप में जाना जाता है और यह बैच नम्बर लेबल पर लिख दिया जायेगा। आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन एक डिजिटल रिकार्ड भी ऑनलाइन अनुरक्षित किया जायेगा और प्रस्तुत किया जायेगा।

(13) बोतलों पर लेबल इस प्रकार चिपकाये जायेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित शब्दों, अक्षरों तथा अंकों पर लेबल नहीं चिपकाया जायेगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(6) सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष अनुज्ञा के और उसे अनुसार सम्मिश्रण या तीव्रतावरोह निषिद्ध है।

(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार देशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंजन करने वाला पदार्थ अथवा कोई अन्य पदार्थ मिलाना निषिद्ध है।

(8) विशेष परिस्थितियों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोतल भराई कक्ष को आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये प्रयोग किया जा सकेगा, परन्तु यह कि किसी भी दशा में देशी मदिरा की बोतल भराई के समय भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई नहीं की जायेगी।

(9) लाइसेंसधारी देशी मदिरा को ऐसी क्षमता एवं तीव्रता की बोतलों या अन्य संधानों में भराई करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किया जाये।

(10) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा देशी शराब की बोतल भराई के लिये प्रयुक्त बोतलों या अन्य संधानों के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(11) टेट्रा पैक सहित कांच या पेट-बोतलों के लेबुलों पर वर्ष के अन्तिम दो अंकसहित शब्द यू0पी0ई0 अधिमुद्रित किया जायेगा।

(12) बोतलों को भरने के तुरंत बाद, बोतलबंद शराब के भण्डारण कक्ष में निकालने से पूर्व उनमें सुरक्षा कोड चस्पा करने के साथ कार्क, कैप्सूल तथा लेबल लगा दिया जायेगा। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर के रूप में जाना जाता है और यह बैच नम्बर लेबल पर लिख दिया जायेगा। आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन एक डिजिटल रिकार्ड भी ऑनलाइन अनुरक्षित किया जायेगा और प्रस्तुत किया जायेगा।

(13) बोतलों पर लेबल इस प्रकार चिपकाये जायेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित शब्दों, अक्षरों तथा अंकों पर लेबल नहीं चिपकाया जायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

(14) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृश्य हो।

(15) बॉटलिंग इकाई ठोस कचरे के पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिये ऐसी समस्त व्यवस्थाएँ करेगा जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में विहित किया गया है।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(14) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृश्य हो।

(15) बॉटलिंग इकाई ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिये ऐसी समस्त व्यवस्थाएँ करेगा जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में विहित किया गया है।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4-सी0एल0बी-1 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी-1
प्रपत्र सी0एल0बी-1

[देखें नियम-3 (क) एवं नियम 4]

देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस

रजिस्टर सं0.....

लाइसेंसधारी का नाम.....

मुहल्ला.....

निवासी.....

जिला.....कोसे
.....तक की अवधि के
लिये.....प्रतिफल

शुल्क का भुगतान के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट भू-गृहादि में देशी मदिरा के बोतल भराई हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिये देशी मदिरा के बोतल भराई से सम्बन्धित नियमावली के उपबंधों के अध्याधीन अग्रिम में 2,00,000 (दो लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया है, जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र सी0एल0बी-1
सी0एल0बी-1

[देखें नियम-3 (1) (क) (ख) एवं नियम 4]

देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस

रजिस्टर सं0.....

लाइसेंसधारी का नाम.....

मुहल्ला.....

निवासी.....

जिला.....कोसे
.....तक की अवधि के
लिये.....प्रतिफल

शुल्क का भुगतान के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट भू-गृहादि में देशी मदिरा के बोतल भराई हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिये देशी मदिरा के बोतल भराई से सम्बन्धित नियमावली के उपबंधों के अध्याधीन अग्रिम में 2,00,000 (दो लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया है, जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी.1

लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त अपना लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहत हो जाने के लिये दायी होगा—

लाइसेंस भू-गृहादि का विवरण

उत्तर

पूरब

जियो टैगिंग:—

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र सी0एल0बी.1

लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त अपना लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहत हो जाने के लिये दायी होगा—

लाइसेंस भू-गृहादि का विवरण

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

जियो टैगिंग:—

अक्षांश

देशान्तर

शर्तें

1—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं हागा।

2—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना स्वयं का ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिये हकदार होगा।

3—आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।

4—लाइसेंसधारी, कांच या पेट बोतलों पर उभरे हुये शब्दों में यू0पी0ई0 मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो डिजिट का अंकन करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

5—लाइसेंसधारी, अपने स्वयं के उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अलग से स्टोक रखेगा।

6—लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनायें, विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

7—उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण भुगतान करने पर समस्त निकासियां दी जायेंगी।

8—लाइसेंसधारी ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।

शर्तें

1—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं हागा।

2—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना स्वयं का ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिये हकदार होगा।

3—आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।

4—लाइसेंसधारी, टेट्रापैक सहित कांच या पेट बोतलों के लेबुलों पर शब्द "यू0पी0ई0" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

5—लाइसेंसधारी, अपने स्वयं के उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अलग से स्टोक रखेगा।

6—लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनायें, विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

7—उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण भुगतान करने पर समस्त निकासियां दी जायेंगी।

8—लाइसेंसधारी ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी.1

शर्तें

9-आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी-1 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोटल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10-लाइसेंस प्राप्त परिसर से बोटल में भरी गयी देशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो।

11-लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो।

12-लाइसेंसधारी देशी मदिरा की बोटल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्वीन बनायी गयी नियमावली में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस एतद्वारा एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिये नवीकृत किया जाता है—

अवधि.....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र सी0एल0बी.1

शर्तें

9-आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी-1 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोटल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10-लाइसेंस प्राप्त परिसर से बोटल में भरी गयी देशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो।

11-लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो।

12-लाइसेंसधारी देशी मदिरा की बोटल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्वीन बनायी गयी नियमावली में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस एतद्वारा एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिये नवीकृत किया जाता है—

अवधि.....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4-प्रपत्र सी0एल0बी-2 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी-2
सी0एल0बी-2

[देखें नियम-3 (ख) (ग) एवं नियम 4]

देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस

रजिस्टर सं0.....

लाइसेंसधारी का नाम.....एवं

पता.....

.....

मुहल्ला.....

.....

लाइसेंस फीस रु0.....शब्दों में

एवं प्रतिभूति धनराशि रु0.....

.....

शब्दों में.....

प्रतिफल शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट भू-गृहादि में देशी मदिरा के बोतल भराई हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिये देशी मदिरा के बोतल भराई से सम्बन्धित नियमावली के उपबंधों के अधधीन अग्रिम में 2,00,000 (दो लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया है, जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होगा—

लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण

उत्तर	दक्षिण
पूरब	पश्चिम
जियो टैगिंग:—	अक्षांश
	देशान्तर

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र सी0एल0बी-2
सी0एल0बी-2

[देखें नियम-3 (2) (3) एवं नियम 4]

देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस

रजिस्टर सं0.....

लाइसेंसधारी का नाम.....एवं

पता.....

.....

मुहल्ला.....

.....

लाइसेंस फीस रु0.....शब्दों में

एवं प्रतिभूति धनराशि रु0.....

.....

शब्दों में.....

प्रतिफल शुल्क का भुगतान के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट भू-गृहादि में देशी मदिरा के बोतल भराई हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिये देशी मदिरा के बोतल भराई से सम्बन्धित नियमावली के उपबंधों के अधधीन अग्रिम में 2,00,000 (दो लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया है, जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होगा—

लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण

पूर्व	पश्चिम
उत्तर	दक्षिण
जियो टैगिंग:—	अक्षांश
	देशान्तर

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी-2
शर्तें

1—लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से पूर्व.....आसवनी या पी0डी0—33 लाइसेंसधारी (आसवक का नाम उल्लिखित कीजिये) का बोतल भराई विशेषाधिकार पट्टा पर प्राप्त करेगा।

2—लाइसेंसधारी, जैसी और जब केवल थोक में आसवक से अपेक्षित हो, बोतल भराई हेतु देशी मदिरा प्रचलित दर पर शुल्क का संदाय करके उस आसवक से प्राप्त करेगा, जिसने उसे बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर दिया हो या समनुदेशित किया हो।

3—लाइसेंसधारी, इस प्रकार पट्टे परदी गयी या समनुदेशित की गयी मात्रा से अधिक देशी स्प्रिट की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं होगा।

4—लाइसेंसधारी, कांच या पेट बोतलों पर उभरे हुये शब्दों में यू0पी0ई0 मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो डिजिट का अंकन करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

5—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिये हकदार होगा।

6—आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।

7—लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्वीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित है, कठोरता से पालन करेगा।

8—लाइसेंसधारी, अपने उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अपना स्टॉक पृथक् रखेगा।

9—लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनायें विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

10—लाइसेंसधारी द्वारा देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों की बिक्री उत्तर प्रदेश में की जायेगी।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र सी0एल0बी-2
शर्तें

1—लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से पूर्व.....आसवनी या पी0डी0—33 लाइसेंसधारी (आसवक का नाम उल्लिखित कीजिये) का बोतल भराई विशेषाधिकार पट्टा पर प्राप्त करेगा।

2—लाइसेंसधारी, जैसी और जब केवल थोक में आसवक से अपेक्षित हो, बोतल भराई हेतु देशी मदिरा प्रचलित दर पर शुल्क का संदाय करके उस आसवक से प्राप्त करेगा, जिसने उसे बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर दिया हो या समनुदेशित किया हो।

3—लाइसेंसधारी, इस प्रकार पट्टे परदी गयी या समनुदेशित की गयी मात्रा से अधिक देशी स्प्रिट की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं होगा।

4—लाइसेंसधारी, टेट्रा पैक सहित कांच या पेट बोतलों के लेबुलों पर शब्द "यू0पी0ई0" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

5—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिये हकदार होगा।

6—आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।

7—लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्वीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित है, कठोरता से पालन करेगा।

8—लाइसेंसधारी, अपने उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अपना स्टॉक पृथक् रखेगा।

9—लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनायें विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

10—लाइसेंसधारी द्वारा देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों की बिक्री उत्तर प्रदेश में की जायेगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी-2
शर्तें

11—उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने पर समस्त निकासियां दी जायेंगी।

12—लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।

13—आबकारी आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी-2 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोटल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोटल भराई के लिये हकदार नहीं होगा।

15—लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि से बोटल में भरी गयी किसी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो।

16—लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस, एतद्वारा एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिये नवीकृत किया जाता है।

अवधि.....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र सी0एल0बी-2
शर्तें

11—उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने पर समस्त निकासियां दी जायेंगी।

12—लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठ भूमि का हो।

13—आबकारी आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी-2 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोटल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14—लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोटल भराई के लिये हकदार नहीं होगा।

15—लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि से बोटल में भरी गयी किसी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो।

16—लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस, एतद्वारा एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिये नवीकृत किया जाता है।

अवधि.....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
ह0 (अस्पष्ट),
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 36201/ X- Licence-Bottling of Country Liquor Rules, 2022, Dated 11 February, 2022 for general information:

No. 36201/X-License-Deshi Sharab Bottle Bharai Niyamavali-2022

Prayagraj, dated: February 11, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules relating to licences for the bottling of Country liquor in supersession of all previous Rules published in this behalf to the extent of their inconsistency with these rules.

**THE UTTAR PRADESH BOTTLING OF COUNTRY LIQUOR
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2022**

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor (First Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force from April 01, 2021.

2. Amendment of Rule 7—In the Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2020, hereinafter referred to as the said rules, for rule-7 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-

Column I

Existing rule

7 (1) Application for the renewal of bottling license shall be made in Form C.L.B-3 to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh on or before February 28 of the year of expiry of the license. Unless the fee or any part thereof is in arrear or there be any other sufficient reason, a bottling license in Form C.L.B-1 and C.L.B-2 may be renewed by the Excise Commissioner for two years, but the license shall be valid only till the period of validity of concerning PD-2/PD-33 License.

(2) Renewal fee shall be payable for the renewal of C.L.B-1 and C.L.B-2 licences as below.

Sl. No.	Presumptive annual bottling of Liquor (In 36% v/v B.L.)	Determined renewal fee of C.L.B.-2 Licences (In Rs.)
1	2	3
1	upto 50 Lakhs.	Rs. 1 Lakh.
2	from 50 Lakhs to 2 Crores.	Rs. 2 Lakhs.
3	from 2 Crores to 4 Crores.	Rs. 5 Lakhs.
4	from 4 Crores to 6 Crores.	Rs. 10 Lakh.
5	Exceeding 6 crores .	Rs. 15 Lakh.

Column II

Rule as hereby substituted

7 (1) Application for the renewal of bottling licence shall be made in Form C.L.B-3 to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh on or before February 28 of the year of expiry of the license. Unless the fee or any part thereof is in arrear or there be any other sufficient reason, a bottling licence in Form C.L.B-1 and C.L.B-2 may be renewed by the Excise Commissioner for two years, but the license shall be valid only till the period of validity of concerning PD-2/PD-33 License.

(2) The application of renewal for a year shall accompany a declaration regarding total number of bottles to be bottled in the year for which the renewal is being applied for. Renewal Fee of C.L.B-1 and C.L.B-2 licences for the said year, shall be calculated at the rate of Rs. 2,00,000/- per Fifty lacs bottles or part thereof, to be bottled in prescribed capacities, as mentioned in the said declaration and the same shall be deposited by the licensee in advance.

Column I*Existing rule*

Provided that a franchisee fee equivalent to half of the renewal fee shall also be payable for renewal of C.L.B-2 license. The presumptive annual bottled liquor shall be calculated on the basis of total quantity of liquor bottled in the ten months preceding the end of the month of January.

Column II*Rule as hereby substituted*

Provided that in case the actual number of bottles, to be bottled in the year is about to exceed the number of bottles mentioned in the declaration, the licensee shall submit an additional declaration for the same and shall deposit additional amount of renewal fee calculated as above in advance.

Provided further that amount deposited as renewal fee shall not be refundable or adjustable in any case.

Provided further that Rs. 2,00,000/- will be the minimum renewal fee for CLB-1 or CLB-2 licenses.

Provided further that a franchisee fee equivalent to half of the renewal fee and the additional franchisee fee calculated on the basis of additional renewal fee if any, shall also be payable for renewal of C.L.B-2 license.

3. Amendment of Rule 8— In the said rules, for rule-8 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-

Column I*Existing rule*

Every license granted in form C.L.B-1 and C.L.B-2 shall be subject to the following terms and conditions:-

1. the Licensee shall carry the operations of bottling in the premises which is previously approved by the Excise Commissioner or officer authorized by him and duly endorsed on the License. This premises shall not be used for any other purpose except for bottling and storage of country liquor;

2. the Licensee shall make no addition or alterations in the said premises without the previous approval of the Excise Commissioner. All such addition and alterations shall be shown in the plan and blue print filed by him;

Column II*Rule as hereby substituted*

Every licence granted in form C.L.B-1 and C.L.B-2 shall be subject to the following terms and conditions:-

1. the Licencee shall carry the operations of bottling in the premises which is previously approved by the Excise Commissioner or officer authorized by him and duly endorsed on the Licence. This premises shall not be used for any other purpose except for bottling and storage of country liquor;

2. the Licencee shall make no addition or alterations in the said premises without the previous approval of the Excise Commissioner. All such additions and alterations shall be shown in the plan and blue print filed by him;

Column I*Existing rule*

3. bottling shall be conducted in separate room(s) set apart for the purpose. The Licensee shall erect bottling vats in bottling room(s) for storage of liquor. He may setup in the bottling room(s) such apparatus for filtration, bottling and processes connected there with as may be necessary;

4. bottled liquor shall be stored in separate room(s) ;

5. every room shall bear on the outside a board on which shall be painted legibly the purpose for which the room is used;

6. Blending or Reducing is prohibited except under and in accordance with the special permission of Excise Commissioner;

7. addition of any flavoring or coloring material or any other substance in country liquor is prohibited except under and in accordance with the special sanction of the Excise Commissioner;

8. in special circumstances, a bottling hall approved by the Excise Commissioner for bottling of Indian Made Foreign Liquor, can also be used for bottling of country liquor with prior permission of Excise Commissioner provided that in any case at the time of bottling of country liquor , bottling of Indian Made Foreign liquor shall not be carried out;

9. the licensee shall bottle country liquor in bottles or other containers of such capacities and strength as are prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government;

10. the licensee shall comply with the directions issued by the Excise Commissioner in respect of bottles or other containers used for bottling of country liquor;

11. the glass bottle/PET bottle shall be embossed with the words "UPE" along with the last two digit of the year on the chest of the bottle;

Column II*Rule as hereby substituted*

3. bottling shall be conducted in separate room(s) set apart for the purpose. The Licencee shall erect bottling vats in bottling room(s) for storage of liquor. He may setup in the bottling room(s) such apparatus for filtration, bottling and processes connected there with as may be necessary;

4. bottled liquor shall be stored in separate room(s) ;

5. every room shall bear on the outside a board on which shall be painted legibly the purpose for which the room is used;

6. Blending or Reducing is prohibited except under and in accordance with the special permission of Excise Commissioner;

7. addition of any flavoring or coloring material or any other substance in country liquor is prohibited except under and in accordance with the special sanction of the Excise Commissioner;

8. in special circumstances, a bottling hall approved by the Excise Commissioner for bottling of Indian Made Foreign Liquor, can also be used for bottling of country liquor with prior permission of Excise Commissioner provided that in any case at the time of bottling of country liquor , bottling of Indian Made Foreign liquor shall not be carried out;

9. the licensee shall bottle country liquor in bottles or other containers of such capacities and strength as are prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government;

10. the licensee shall comply with the directions issued by the Excise Commissioner in respect of bottles or other containers used for bottling of country liquor;

11. The words "UPE" along with the last two digits of the year shall be overprinted on the label of glass or pet bottles including tetra pack;

Column I*Existing rule*

12. immediately after the bottles have been filled up, they shall be corked, capsuled, labeled and affixed with security code before removing to the room for storage of bottled liquor. A distinctive serial number to be known as the batch number shall be assigned to each bottling operation and this batch number shall be noted on the label. A digital record will also be maintained and submitted online on designated portal of Excise Department daily;

13. labels on the bottles shall be so affixed as to be easily distinguishable. No label shall be pasted over the words, letters and figures molded or sand blasted thereon.

14. the licensee shall print the maximum retail price on the label of country liquor to be sold in Uttar Pradesh which shall be easily visible;

15. bottling unit shall make all such arrangements **as** prescribed in solid Waste Management Rules, 2016 for recycling and management of solid wastes.

Column II*Rule as hereby substituted*

12. immediately after the bottles have been filled up, they shall be corked, capsuled, labeled and affixed with security code before removing to the room for storage of bottled liquor. A distinctive serial number to be known as the batch number shall be assigned to each bottling operation and this batch number shall be noted on the label. A digital record will also be maintained and submitted online on designated portal of Excise Department daily;

13. labels on the bottles shall be so affixed as to be easily distinguishable. No label shall be pasted over the words, letters and figures molded or sand blasted thereon.

14. the licensee shall print the maximum retail price on the label of country liquor to be sold in Uttar Pradesh which shall be easily visible;

15. bottling unit shall make all such arrangements **as** prescribed in solid Waste Management Rules, 2016 for recycling and management of solid wastes.

Excise Commissioner
Uttar Pradesh

3. Amendment of Form C.L.B -1—In the said rules, for existing Form set out in Column I below the form as set out in column II shall be substituted, namely :-

Column-1

Existing form C.L.B.-1

C.L.B.-1

[Rule 3 (1) (a) (b) & 4]

License for the bottling of Country Liquor

Register No.....

Name of License.....

Locality.....

License for the bottling of Country Liquor.....

Column-1

Form as hereby substituted C.L.B.-1

C.L.B.-1

[Rule 3 (1) (a) (b) & 4]

License for the bottling of Country Liquor

Register No.....

Name of License.....

Locality.....

License for the bottling of Country Liquor.....

Column-1

Existing form C.L.B.-1

After payment of consideration fees in the premises specified below is granted toof.....in the district offor the period from.....to..... for which license fee of Rs. 2,00,000 (Rupees Two Lakh) has been paid in advance subject to the provisions of the rules relating to the bottling of country liquor, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the forfeiture of his license and the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the above laws.

Description of licensed Premises.

East	West
North	South
Geo tagging:-	latitude
	longitude.

CONDITONS

1. The licensee shall not be entitled to bottle liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner.

2. The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles as bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3. Coloring, blending, flavouring or reduction of spirit is strictly prohibited in the bottling premises except under and in accordance with the special permission of the Excise Commissioner.

4. The licensee shall make arrangements to emboss the word "UPE" ,Volume and last two digit of the year on Glass or Pet Bottles.

Column-1

Form as hereby substituted C.L.B.-1

After payment of consideration fees in the premises specified below is granted toof.....in the district offor the period from.....to..... for which license fee of Rs. 2,00,000 (Rupees Two Lakh) has been paid in advance subject to the provisions of the rules relating to the bottling of country liquor, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the forfeiture of his license and the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the above laws.

Description of licensed Premises.

East	West
North	South
Geo tagging:-	latitude
	longitude.

CONDITONS

1. The licensee shall not be entitled to bottle liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner.

2. The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles as bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3. Coloring, blending, flavouring or reduction of spirit is strictly prohibited in the bottling premises except under and in accordance with the special permission of the Excise Commissioner.

4. The licensee shall make arrangements to overprint the words "UPE", volume and last two digit of the year on the label of glass or pet bottles including tetra pack.

Column-1
Existing form C.L.B.-1

CONDITONS

5. The licensee will stock separately his own product after bottling.

6. All technical information will be provided by licensee to the department timely.

7. All the issues shall be made to the wholesale licenses of country liquor of Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues.

8. The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious or has criminal background.

9. A technical inspection of C.L.B-1 premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling shall begin.

10. No bottled country liquor shall be issued from the Licensed Premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh.

11. Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible.

12. The Licensee shall strictly comply with the rules and regulations relating to the bottling of country liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of country liquor as provided in the U.P. Excise Act, 1910 and the rules made there under.

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

ENDORSEMENT OF RENEWAL

This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:-

Period.....

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

Column-1
Form as hereby substituted C.L.B.-1

CONDITONS

5. The licensee will stock separately his own product after bottling.

6. All technical information will be provided by licensee to the department timely.

7. All the issues shall be made to the wholesale licenses of country liquor of Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues.

8. The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious or has criminal background.

9. A technical inspection of C.L.B-1 premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling shall begin.

10. No bottled country liquor shall be issued from the Licensed Premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh.

11. Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible.

12. The Licensee shall strictly comply with the rules and regulations relating to the bottling of country liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of country liquor as provided in the U.P. Excise Act, 1910 and the rules made there under.

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

ENDORSEMENT OF RENEWAL

This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:-

Period.....

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

4. Amendment of Form C.L.B -2—In the said rules, for existing Form set out in Column 1 below

Column-1 Existing form C.L.B.-2 C.L.B.-2 [Rule 3 (2) (3) & 4] License for the bottling of Country Liquor		Column-1 Form as hereby substituted C.L.B.-2 C.L.B.-2 [Rule 3 (2) (3) & Rule 4] License for the bottling of Country Liquor	
Register No.....		Register No.....	
Name and Address License.....		Name and Address License.....	
Locality.....		Locality.....	
License fee in rupees.....in words.....		License fee in rupees.....in words.....	
Security amount.....in words.....		Security amount.....in words.....	
License for the bottling of Country Liquor after payment of consideration fee in the premises specified below is granted to of.....in the district offor the period fromto..... for which security of Rs. 2,00,000 (Rupees two Lakh) has been paid in advance subject to the provisions of the rules relating to the bottling of country liquor, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the forfeiture of his license and the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the aforesaid laws.		License for the bottling of Country Liquor after payment of consideration fee in the premises specified below is granted to of.....in the district offor the period fromto..... for which security of Rs. 2,00,000 (Rupees two Lakh) has been paid in advance subject to the provisions of the rules relating to the bottling of country liquor, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the forfeiture of his license and the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the aforesaid laws.	
Description of licensed Premises.		Description of licensed Premises.	
East	West	East	West
North	South	North	South
Geo tagging:-	latitude	Geo tagging:-	latitude
	longitude.		longitude.

Column-1
Existing form C.L.B.-2

CONDITONS

(1) The licensee shall obtain on lease the bottling privilege ofdistillery or PD-33 Licensee (mention the name of distiller) before bottling country liquor.

(2) The licensee shall obtain country spirit for bottling as and when required in bulk only from the distillery which has let or assigned its bottling privilege, with payment of duty at the prevalent rates.

(3) The licensee shall not be entitled to bottle spirit in excess of the quantity so let or assigned.

(4) The licensee shall make such arrangement to emboss the word "UPE" , Volume and last two digit of the year on Glass or Pet Bottles.

(5) The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

(6) Colouring, blending, flavoring and reduction of spirit, unless specially permitted by the Excise Commissioner is strictly prohibited in the bottling premises.

(7) The licensee shall strictly comply with the rules and regulation relating to the bottling of Country Liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of Country Liquor as provided in the U.P. Excise Act,1910 and the rules made there under.

(8) The licensee will stock separately his own product after bottling.

(9) All technical information will be provided by licensee to the department timely.

(10) Bottled country liquor shall be sold by licensee in Uttar Pradesh.

(11) All the issues shall be made to the wholesale licenses of county liquor in Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues.

Column-1
Form as hereby substituted C.L.B.-2

CONDITONS

(1) The licensee shall obtain on lease the bottling privilege ofdistillery or PD-33 Licensee (mention the name of distiller) before bottling country liquor.

(2) The licensee shall obtain country spirit for bottling as and when required in bulk only from the distillery which has let or assigned its bottling privilege, with payment of duty at the prevalent rates.

(3) The licensee shall not be entitled to bottle spirit in excess of the quantity so let or assigned.

(4) The licensee shall make arrangements to overprint the words "UPE", volume and last two digit of the year on the label of glass or pet bottles including tetra pack.

(5) The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

(6) Colouring, blending, flavoring and reduction of spirit, unless specially permitted by the Excise Commissioner is strictly prohibited in the bottling premises.

(7) The licensee shall strictly comply with the rules and regulation relating to the bottling of Country Liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of Country Liquor as provided in the U.P. Excise Act,1910 and the rules made there under.

(8) The licensee will stock separately his own product after bottling.

(9) All technical information will be provided by licensee to the department timely.

(10) Bottled country liquor shall be sold by licensee in Uttar Pradesh.

(11) All the issues shall be made to the wholesale licenses of county liquor in Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues.

Column-1
Existing form C.L.B.-2

CONDITONS

(12) The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious disease or has criminal background.

(13) A technical inspection of C.L.B-2 premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling will have to begin.

(14) The licensee shall not be entitled to bottle liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner.

(15) No bottled liquor shall be issued from the Licensed Premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh.

(16) Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible.

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

ENDORSEMENT OF RENEWAL

This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:-

Period.....

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

Column-1
Form as hereby substituted C.L.B.-2

CONDITONS

(12) The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious disease or has criminal background.

(13) A technical inspection of C.L.B-2 premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling will have to begin.

(14) The licensee shall not be entitled to bottle liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner.

(15) No bottled liquor shall be issued from the Licensed Premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh.

(16) Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible.

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

ENDORSEMENT OF RENEWAL

This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:-

Period.....

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

By order,
(Sd.) ILLEGIBLE
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.